

थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा चोरी सम्बंधित प्रकरण में 01 नफर शातिर चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से चुराई गयी 02 अदद लैपटाप, 02 अदद एलसीडी टीवी व 01 अदद साइकिल के साथ अन्य समान बरामद

अवगत कराना है कि वादिनी सच्ची रानी पत्नी नवीन सिंह, निवासी निमियाटाड बस्ती, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र द्वारा दिये गये लिखित तहरीर की सूचना पर थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-102/2022 धारा 380, 457 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ0 यशवीर सिंह निर्देशन में जनपद सोनभद्र द्वारा बांछित/ वारण्टी/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पुलिस टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु कोटा तिराहा पर पर मौजूद था कि जरिये मुखबिर खास सूचना पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त शकील पुत्र नसीर निवासी निमियाटाड, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र को खड़िया तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक- 17/18.07.2022 की रात्रि में रामकेश गुप्ता के किराये के मकान मे रह रही किरायेदार सच्ची रानी निवासी निमियाटाड के घर की दरवाजा का ताला तोड़ घर की तलाशी लिया एक बैग में सोने की दो चैन, टप्स, झुमका व नगद 23 हजार 500 रुपये व दो अदद मोबाइल चुराया। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व मे चोरी के प्रकरण मे जेल भी जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शकील पुत्र नसीम मोहम्मद निवासी निमियाटांड चिल्काटांड बस्ती , थाना शक्तिनगर , सोनभद्र उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

01. पांच अदद मोबाइल।
02. एक जोड़ी झुमका।
03. दो अदद चैन पीली धातु।
04. एक अदद टप्स पीली धातु की पीली धातु।
05. एक अदद झुमका पीली धातु।
06. नगद कुल 22829/- रुपया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष नागेश कुमार सिंह, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।
2. व0उ0नि0 राजेश कुमार यादव, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।
3. का0 उपेन्द्र चौधरी, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।
4. का0 सुरेश कुमार यादव, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।
5. का0 अमित चौहान, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।